



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 24]  
No. 24]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 2012/माघ 19, 1933  
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 2012/MAGHA 19, 1933

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 2 फरवरी, 2012

सं. टीएएमपी/17/2011-आईसीटीपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वाँ) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा मुम्बई पत्तन न्यास के द्वारा अपने सीएफएस पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए, कार्गो प्रबंधन प्रभार की वसूली हेतु, अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता अवधि को संलग्न आदेशानुसार बढ़ाता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/17/2011-आईसीटीपीएल

मुम्बई पत्तन न्यास

...

आवेदक

आदेश

(जनवरी, 2012 के 27वें दिन पारित)

यह मामला मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा अपने सीएफएस पर प्रदत्त सेवाओं के लिए, कार्गो प्रबंधन प्रभार की वसूली हेतु, अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता अवधि को बढ़ाने से संबंधित है।

2. मुंबई पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान के प्रासंगिक प्रावधानों को संशोधित करते हुए, इस प्राधिकरण ने अपने आदेश संख्या टीएएमपी/17/2011-आईसीटीपीएल दिनांक 29 जून 2011 में अन्य बातों के साथ आदेश की अधिसूचना की तिथि से छह माह की अवधि के लिए एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में मुंबई पत्तन न्यास द्वारा अपने सीएफएस में प्रदत्त कार्गो प्रबंधन सेवाओं के लिए प्रभार अनुमोदित किए हैं। प्राधिकरण ने मुंबई पत्तन न्यास को, आदेश की अधिसूचित होने वाली तिथि से तीन महिनों के अंदर, अपने सीएफएस पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए, अलग से कार्गो प्रबंधन प्रभार की वसूली के लिए, लागत विवरणियों द्वारा विधिवत् उचित उहाराए गए, सुविश्लेषित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी थी। इस प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 29 जून, 2011 के आदेश सं. टीएएमपी/17/2011-आईसीटीपीएल द्वारा अनुमोदित अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता 10 जनवरी, 2012 तक थी।

3. मुंबई पत्तन न्यास ने अपने पत्र दिनांक 10 जनवरी, 2012 के द्वारा सूचित किया है कि अपने सीएफएस पर प्रदान की गई सेवाओं के लिए, अलग से कार्गो प्रबंधन प्रभार की वसूली के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, बोर्ड के द्वारा अनुमोदित किये जाने पर, अनुमोदित प्रस्ताव को टीएएमपी को अग्रेषित किया जायेगा। इसलिए, मुंबई पत्तन न्यास ने दिनांक 29 जून, 2011 को अनुमोदित अंतरिम प्रशुल्क आदेश का वैधता को आगे तीन महिने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

4. चूंकि अंतरिम प्रशुल्क व्यवस्था की वैधता 10 जनवरी, 2012 को समाप्त हो चुकी है, इसलिए उस तिथि से परे (आगे) प्रचलित व्यवस्था की वैधता को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसलिए, यह प्राधिकरण, मुंबई पत्तन न्यास के दरमान के अध्याय-V, खंड 5एच की वर्तमान धारा 7 (क) से (घ) तक की वैधता को दिनांक 10 अप्रैल, 2012 अथवा मुंबई पत्तन न्यास द्वारा दाखिल किये जाने वाले प्रस्ताव पर, इस प्राधिकरण द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक इनमें से जो भी पहिले हो विस्तार प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप, मुंबई पत्तन न्यास के प्रचलित दरमानों के अध्याय -V के धारा 5H के खंड 7(c) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है :

*"7(c) उपरोक्त प्रावधानों ऊपर 7(क) से (घ) तक के प्रावधान 10 अप्रैल, 2012 तक की अथवा मुंबई पत्तन न्यास के द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर, इस प्राधिकरण के द्वारा पारित होनेवाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि तक, जो भी पहले हो वैधता रहेगी, जब तक कि इसे इस प्राधिकरण के द्वारा विशिष्ट रूप से बढ़ाया न गया हो।"*

5. अंतरिम प्रशुल्क की वैधता को 10 जनवरी, 2012 से आगे विस्तार, जैसा ऊपर बताया गया है, इस शर्त के आधीन है कि इस संबंध में मुंबई पत्तन न्यास द्वारा दाखिल किए जानेवाले प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित की जानेवाली दरें यदि प्रचलित अंतरिम दरों से कम होंगी तो मुंबई पत्तन न्यास 11 जनवरी, 2012 से आरंभ होनेवाली और निर्धारित की जानेवाली संशोधित दरों के लागू किए जाने की प्रभावी तिथि तक की अवधि के लिए इसके द्वारा वसूल की गई अधिक राशि के रूप में अंतर संबंधित पक्षों को वापस करेगा।

रानी जाधव, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/143/11/असा.]

### TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd February, 2012.

**No. TAMP/17/2011-ICTPL.**—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of interim tariff arrangement for levy of cargo management charges for the services rendered by MbPT at its CFS as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**  
**No. TAMP/17/2011-ICTPL**

Mumbai Port Trust

Applicant

....  
ORDER

(Passed on this 27th day of January, 2012)

This case relates to extension of the existing interim tariff arrangement for levy of charges for cargo management services rendered by MbPT at its CFS.

2. This Authority in its Order No TAMP/17/2011-ICTPL dated 29 June 2011, has, inter-alia, approved the charges for cargo management services provided by MbPT at its CFS, as an interim arrangement, for a period of six months from the date of notification of the Order, by amending the relevant provisions of the existing Scale of Rates of MbPT. The Authority also advised the MbPT to come up with a well analysed proposal for levy of separate cargo management charges for the services provided by the port at its CFS, duly justified by cost details, within a period of three months from the date of notification of the Order. The interim tariff arrangement approved by this Authority vide Order No. TAMP/17/2011-ICTPL dated 29 June was valid till 10 January 2012.

3. The MbPT vide its letter dated 10 January 2012 has stated that the proposal for levy of separate cargo management charges for the services provided by the port at its CFS is being finalised and placed before its Board and on approval by its Board, the proposal will be forwarded to TAMP. Hence, the MbPT has requested to extend the validity of the interim tariff approved vide Order dated 29 June 2011 for further 3 months.

4. Since the validity of the interim tariff arrangement has expired on 10 January 2012, it is necessary to extend the validity the existing arrangement beyond that date. Therefore, this Authority extends the validity of the existing Clauses 7(a) to (d) of Section 5H, Chapter-V of the Scale of Rates of MbPT till 10 April 2012 or till the effective date of implementation of the Order to be passed by this Authority on the proposal to be filed by MbPT, whichever is earlier. Consequently the existing Clause 7(e) of Section 5H, Chapter-V of the Scale of Rates of MbPT is replaced with the following:

"7(e) The provisions at 7(a) to (d) above shall be valid till 10 April 2012 or till the effective date of implementation of the Order to be passed by this Authority on the proposal to be filed by the MbPT, whichever is earlier, unless specifically extended by this Authority."

5. The extension of the validity of the interim tariff beyond 10 January 2012 as stated above is subject to the condition that if the rates to be approved by this Authority based on the proposal to be filed by the MbPT in this regard is lower than the existing interim rates, the MbPT shall refund the difference, being the excess amount collected by it for the period commencing from 11 January 2012, till the effective date of implementation of the revised rates to be fixed to the concerned parties.

RANI JADHAV, Chairperson  
 [ADVT. III/4/143/11/Exty]